



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2690]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938

No. 2690]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2016

का.आ. 3453(अ).-केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 नवंबर, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:

- (1) धारा 199 से धारा 207 [दोनों सहित];
- (2) धारा 208 की उपधारा (1)-
 - (i) खंड (ग);
 - (ii) खंड (ड.);
- (3) धारा 208 की उपधारा (2);
- (4) धारा 217 से धारा 220 [दोनों सहित];
- (5) धारा 251;
- (6) धारा 253;
- (7) धारा 254; और
- (8) धारा 255।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2016

S.O. 3453(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 15th November, 2016 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:--

- (1) section 199 to section 207 [both inclusive];
- (2) sub-section (1) of section 208-
 - (i) clause (c);
 - (ii) clause (e);
- (3) sub-section (2) of section 208;
- (4) section 217 to section 220 [both inclusive];
- (5) section 251;
- (6) section 253;
- (7) section 254; and
- (8) section 255.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.